

18/HV/M-2023-15

Booklet Series

Candidate's Roll Number

--	--	--	--	--	--

A

Serial No.

Question Booklet

GENERAL STUDIES AND GEOGRAPHY

Paper—4

Time Allowed : 2 Hours

Maximum Marks : 120

Read the following instructions carefully before you begin to answer the questions.

IMPORTANT INSTRUCTIONS

1. This Question Booklet is divided into two Parts, Part-I and Part-II. Part-I contains questions of **GENERAL STUDIES**. Part-II contains questions of **GEOGRAPHY**.
2. **Part-I** consists of Question Nos. **1 to 40** and **Part-II** consists of Question Nos. **41 to 120**. **All questions and their responses are printed in English as well as in Hindi versions.**
3. **All** questions carry equal marks.
4. Attempt questions from **Part-I** and **Part-II**.
5. **Immediately after commencement of the examination, you should check up your Question Booklet and ensure that the Question Booklet Series is printed on the top right-hand corner of the Booklet. Please check that the Booklet contains 48 printed pages including two pages (Page Nos. 46 and 47) for Rough Work and no page or question is missing or unprinted or torn or repeated. If you find any defect in this Booklet, get it replaced immediately by a complete Booklet of the same series.**
6. You must write your Roll Number in the space provided on the top of this page. Do not write anything else on the Question Booklet.
7. An Answer Sheet will be supplied to you separately by the Invigilator to mark the answers. **You must write your Name, Roll No., Question Booklet Series and other particulars in the space provided on Page-1 of the Answer Sheet provided, failing which your Answer Sheet will not be evaluated.**
8. You should encode your **Roll Number and the Question Booklet Series A, B, C or D** as it is printed on the top right-hand corner of the Question Booklet with Black/Blue ink ballpoint pen in the space provided on **Page-2** of your Answer Sheet. **If you do not encode or fail to encode the correct series of your Question Booklet, your Answer Sheet will not be evaluated correctly.**
9. Each question comprises of **five** responses—(A), (B), (C), (D) and (E). You are to select **ONLY ONE** correct response and mark it in your Answer Sheet. In any case, choose **ONLY ONE** response for each question. Your total marks will depend on the number of correct responses marked by you in the Answer Sheet.
10. In the Answer Sheet, there are **five** circles—(A), (B), (C), (D) and (E) against each question. To answer the questions, you are to mark with Black/Blue ink ballpoint pen **ONLY ONE** circle of your choice for each question. Select only one response for each question and mark it in your Answer Sheet. If you mark more than one answer for one question, the answer will be treated as wrong. **Use Black/Blue ink ballpoint pen only to mark the answer in the Answer Sheet. Any erasure or change is not allowed.**
11. For each question for which a **wrong answer** has been given by the candidates, **one-fourth** of the marks assigned to that question will be deducted as **penalty**.
12. You should not remove or tear off any sheet from the Question Booklet. You are not allowed to take this Question Booklet and the Answer Sheet out of the Examination Hall during the examination. **After the examination has concluded, you must hand over your Answer Sheet to the Invigilator.** Thereafter, you are permitted to take away the Question Booklet with you.
13. Failure to comply with any of the above instructions will render you liable to such action or penalty as the Commission may decide at their discretion.
14. Candidates must assure before leaving the Examination Hall that their Answer Sheets will be kept in Self Adhesive LDPE Bag and completely packed/sealed in their presence.

ध्यान दें : अनुदेशों का हिन्दी रूपान्तर इस पुस्तिका के अन्तिम पृष्ठ पर छपा है।



PART—I
(GENERAL STUDIES)

1. How many three-digit numbers are divisible by 5?
(A) 180
(B) 200
(C) 120
(D) More than one of the above
(E) None of the above
2. The value of $\left(1 + \frac{1}{2}\right)\left(1 + \frac{1}{3}\right)\left(1 + \frac{1}{4}\right) \dots \left(1 + \frac{1}{120}\right)$ is
(A) 60.5
(B) 30.0
(C) 40.5
(D) More than one of the above
(E) None of the above
3. The distance between Delhi and Agra is 200 km. Suppose you are travelling from Delhi to Agra by a car. If you can maintain an average speed of 90 km/hr for 120 km and 40 km/hr for the remaining distance, how much time will you take, on average, to reach Agra?
(A) 3 hr 20 min
(B) 3 hr 30 min
(C) 4 hr 45 min
(D) More than one of the above
(E) None of the above
4. 10% loss on selling price is what percent loss on cost price?
(A) $9\frac{1}{11}\%$
(B) $9\frac{2}{11}\%$
(C) 10%
(D) More than one of the above
(E) None of the above
5. A pizza boy delivered two-fifths of his pizzas on day 1, three-fourths of his pizzas on day 2 and $\frac{9}{16}$ of his pizzas on day 3. On which day did he deliver the most pizzas if he had the same number of pizzas in the beginning of each day?
(A) Day 1
(B) Day 2
(C) Day 3
(D) More than one of the above
(E) None of the above
6. The cost of carpeting a room 18 m long with a carpet 75 cm wide at ₹ 4.50 per metre is ₹ 810. The breadth of the room is
(A) 7 m
(B) 7.5 m
(C) 8 m
(D) More than one of the above
(E) None of the above



PART—I

(GENERAL STUDIES)

1. तीन अंकों की कितनी संख्याएँ 5 से विभाज्य हैं?
(A) 180
(B) 200
(C) 120
(D) उपर्युक्त में से एक से अधिक
(E) उपर्युक्त में से कोई नहीं
2. $\left(1 + \frac{1}{2}\right)\left(1 + \frac{1}{3}\right)\left(1 + \frac{1}{4}\right) \dots \left(1 + \frac{1}{120}\right)$ का मान है
(A) 60.5
(B) 30.0
(C) 40.5
(D) उपर्युक्त में से एक से अधिक
(E) उपर्युक्त में से कोई नहीं
3. दिल्ली और आगरा के बीच की दूरी 200 कि० मी० है। मान लीजिए आप दिल्ली से आगरा एक कार द्वारा जा रहे हैं। यदि आप 120 कि० मी० के लिए औसत गति 90 कि० मी०/घं० और बाकी दूरी के लिए औसत गति 40 कि० मी०/घं० बनाए रखते हैं, तो आपको आगरा पहुँचने में औसतन कितना समय लगेगा?
(A) 3 घंटा 20 मिनट
(B) 3 घंटा 30 मिनट
(C) 4 घंटा 45 मिनट
(D) उपर्युक्त में से एक से अधिक
(E) उपर्युक्त में से कोई नहीं
4. विक्रय मूल्य पर 10% की हानि, लागत मूल्य पर कितने प्रतिशत की हानि है?
(A) $9\frac{1}{11}\%$
(B) $9\frac{2}{11}\%$
(C) 10%
(D) उपर्युक्त में से एक से अधिक
(E) उपर्युक्त में से कोई नहीं
5. एक पिज्जा वाला पहले दिन दो-पाँचवें पिज्जा, दूसरे दिन तीन-चौथाई पिज्जा और तीसरे दिन $\frac{9}{16}$ पिज्जाओं का वितरण करता है। यदि प्रत्येक दिन की शुरुआत में उसके पास समान संख्या में पिज्जा थे, तो उसने किस दिन सबसे अधिक पिज्जा वितरित किए?
(A) पहले दिन
(B) दूसरे दिन
(C) तीसरे दिन
(D) उपर्युक्त में से एक से अधिक
(E) उपर्युक्त में से कोई नहीं
6. 18 मीटर लम्बे एक कमरे में, 75 से० मी० चौड़े गलीचे का उपयोग करके, गलीचा बिछाने की लागत ₹ 4.50 प्रति मीटर की दर से ₹ 810 है। कमरे की चौड़ाई है
(A) 7 मीटर
(B) 7.5 मीटर
(C) 8 मीटर
(D) उपर्युक्त में से एक से अधिक
(E) उपर्युक्त में से कोई नहीं

7. Two persons *A* and *B* complete a task in 15 days, when they work together. Person *A* completes the task in 20 days if he works alone. How many days will *B* take to finish the task alone?
- (A) 35 days
(B) 25 days
(C) 60 days
(D) More than one of the above
(E) None of the above
8. The sum of the numerator and denominator of a fraction is 11. If 1 is added to the numerator and 2 is subtracted from the denominator, it becomes $\frac{2}{3}$. The fraction is
- (A) $\frac{5}{6}$
(B) $\frac{6}{5}$
(C) $\frac{3}{8}$
(D) More than one of the above
(E) None of the above
9. An isotropic source of 2 candela produces light flux equal to
- (A) 2π lumen
(B) 4π lumen
(C) 8π lumen
(D) More than one of the above
(E) None of the above
10. The spray bottles used as window or household cleaner or perfume sprayer work on
- (A) capillary action
(B) Bernoulli's principle
(C) Pascal's law
(D) More than one of the above
(E) None of the above
11. The trade name of basic lead carbonate is
- (A) white lead
(B) red lead
(C) litharge
(D) More than one of the above
(E) None of the above
12. Which of the following elements has the largest atomic radius?
- (A) Lithium
(B) Beryllium
(C) Boron
(D) More than one of the above
(E) None of the above



7. दो व्यक्ति A और B एक काम को 15 दिनों में पूरा कर देते हैं, यदि वे एक साथ काम करते हैं। व्यक्ति A अकेला उसी काम को 20 दिनों में पूरा कर देता है। यह काम अकेला B कितने दिनों में पूरा कर पाएगा?
- (A) 35 दिनों में
(B) 25 दिनों में
(C) 60 दिनों में
(D) उपर्युक्त में से एक से अधिक
(E) उपर्युक्त में से कोई नहीं
8. एक भिन्न के अंश और हर का योग 11 है। यदि अंश में 1 जोड़ दिया जाय और हर में से 2 घटा दिया जाय, तो यह $\frac{2}{3}$ हो जाता है। भिन्न है
- (A) $\frac{5}{6}$
(B) $\frac{6}{5}$
(C) $\frac{3}{8}$
(D) उपर्युक्त में से एक से अधिक
(E) उपर्युक्त में से कोई नहीं
9. 2 कैन्डेला का एक समदिक् स्रोत जितना प्रकाश फ्लक्स पैदा करता है, वह है
- (A) 2π ल्यूमेन
(B) 4π ल्यूमेन
(C) 8π ल्यूमेन
(D) उपर्युक्त में से एक से अधिक
(E) उपर्युक्त में से कोई नहीं
10. विंडो या घरेलू क्लीनर या पफ़रूम स्प्रेयर के रूप में इस्तेमाल की जाने वाली स्प्रे बोटलें निम्नलिखित में से किस पर काम करती हैं?
- (A) केशिका क्रिया
(B) बरनौली का सिद्धांत
(C) पास्कल का नियम
(D) उपर्युक्त में से एक से अधिक
(E) उपर्युक्त में से कोई नहीं
11. क्षारीय (बेसिक) लेड कार्बोनेट का व्यापारिक नाम है
- (A) सफेदा (ह्वाइट लेड)
(B) सिंदूर (रेड लेड)
(C) लिथार्ज
(D) उपर्युक्त में से एक से अधिक
(E) उपर्युक्त में से कोई नहीं
12. निम्नलिखित में से किस तत्व की परमाणु त्रिज्या सबसे बड़ी है?
- (A) लिथियम
(B) बेरिलियम
(C) बोरॉन
(D) उपर्युक्त में से एक से अधिक
(E) उपर्युक्त में से कोई नहीं

- 13.** The phenomenon of photo-periodism in plants was discovered by
(A) Garner and Allard
(B) Steward and Salisbury
(C) Thimann and Skoog
(D) More than one of the above
(E) None of the above
- 14.** Silent Valley of Kerala is preserved because
(A) it contains very rare species of plants and animals
(B) the soil is rich in minerals
(C) the areas of land were used extensively for agriculture purposes
(D) More than one of the above
(E) None of the above
- 15.** During normal respiration in a mammal, the diaphragm is
(A) arched
(B) flattened
(C) lowered
(D) More than one of the above
(E) None of the above
- 16.** The most important cell type associated with the immunity of the body is
(A) platelets
(B) lymphocytes
(C) RBCs
(D) More than one of the above
(E) None of the above
- 17.** The book entitled, *Gyan Deepak* was authored by a great saint
(A) Salar Masood Ghazi
(B) Dariya Saheb
(C) Imam Shah Faqih
(D) More than one of the above
(E) None of the above
- 18.** Which agency in India has launched UTSAH portal?
(A) UGC
(B) AICTE
(C) MCI
(D) More than one of the above
(E) None of the above
- 19.** A. P. J. Abdul Kalam Satellite Launch Vehicle Mission was launched on
(A) 13th February, 2023
(B) 20th February, 2023
(C) 19th February, 2023
(D) More than one of the above
(E) None of the above
- 20.** In which city was the first pure green hydrogen plant commissioned?
(A) Hyderabad
(B) Mumbai
(C) Pune
(D) More than one of the above
(E) None of the above



13. पौधों में प्रदीप्तकालिता की खोज करने वाले हैं
 (A) गार्नर और एलार्ड
 (B) स्टीवर्ड और सैलिसबरी
 (C) थीमैन और स्कूग
 (D) उपर्युक्त में से एक से अधिक
 (E) उपर्युक्त में से कोई नहीं
14. केरल की शांत घाटी (साइलेंट वैली) संरक्षित है, क्योंकि
 (A) इसमें पौधों और जानवरों की बहुत ही दुर्लभ प्रजातियाँ पाई जाती हैं
 (B) मिट्टी खनिजों से भरपूर है
 (C) कृषि प्रयोजनों के लिए भूमि के क्षेत्रों का बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाता था
 (D) उपर्युक्त में से एक से अधिक
 (E) उपर्युक्त में से कोई नहीं
15. स्तनधारी में सामान्य श्वसन के दौरान डायफ्राम होता है
 (A) धनुषाकार
 (B) चपटा
 (C) नीचे धँसा हुआ
 (D) उपर्युक्त में से एक से अधिक
 (E) उपर्युक्त में से कोई नहीं
16. शरीर की प्रतिरोधक क्षमता से जुड़ी सबसे महत्वपूर्ण कोशिका प्रकार है
 (A) प्लेटलेट
 (B) लिम्फोसाइट
 (C) आर० बी० सी०
 (D) उपर्युक्त में से एक से अधिक
 (E) उपर्युक्त में से कोई नहीं
17. ज्ञान दीपक नामक पुस्तक की रचना किस महान संत ने की थी?
 (A) सालार मसूद गाज़ी
 (B) दरिया साहेब
 (C) इमाम शाह फ़कीह
 (D) उपर्युक्त में से एक से अधिक
 (E) उपर्युक्त में से कोई नहीं
18. भारत में किस एजेंसी ने UTSAH पोर्टल का शुभारंभ किया है?
 (A) यू० जी० सी०
 (B) ए० आइ० सी० टी० ई०
 (C) एम० सी० आइ०
 (D) उपर्युक्त में से एक से अधिक
 (E) उपर्युक्त में से कोई नहीं
19. ए० पी० जे० अब्दुल कलाम सैटेलाइट लॉन्च वीहिकल मिशन को लॉन्च किया गया था
 (A) 13 फरवरी, 2023 को
 (B) 20 फरवरी, 2023 को
 (C) 19 फरवरी, 2023 को
 (D) उपर्युक्त में से एक से अधिक
 (E) उपर्युक्त में से कोई नहीं
20. किस शहर में प्रथम शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र चालू किया गया था?
 (A) हैदराबाद
 (B) मुंबई
 (C) पुणे
 (D) उपर्युक्त में से एक से अधिक
 (E) उपर्युक्त में से कोई नहीं

21. Which year has been declared by the UNO as the 'International Year of Millets'?

- (A) 2023
- (B) 2022
- (C) 2024
- (D) More than one of the above
- (E) None of the above

22. Who among the following won the 2022 Nobel Peace Prize?

- (A) Ales Bialiatski
- (B) Nadia Murad
- (C) Maria Ressa
- (D) More than one of the above
- (E) None of the above

23. Who is the Chairman of the State Commission for Backward Classes appointed by the Bihar Government on 2nd January, 2022?

- (A) Justice Sanjay Kumar
- (B) Justice Balmiki Prasad Sinha
- (C) Justice Iqbal A. Ansari
- (D) More than one of the above
- (E) None of the above

24. Which was the first movie in Bhojpuri?

- (A) *Ganga Maiya Tohe Piyari Chadhaibo*
- (B) *Kanyadan*
- (C) *Nadiya Ke Paar*
- (D) More than one of the above
- (E) None of the above

25. Arrange the following thermal power projects of India from east to west :

1. Kota
2. Namrup
3. Obra
4. Parichha

Select the correct answer using the codes given below.

- (A) 1, 2, 3, 4
- (B) 2, 4, 1, 3
- (C) 2, 3, 4, 1
- (D) More than one of the above
- (E) None of the above

26. Which type of climate is in India according to Trewartha?

- (A) Savanna type
- (B) Subtropical monsoon climate
- (C) Mediterranean type
- (D) More than one of the above
- (E) None of the above



21. संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा किस वर्ष को 'अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष' घोषित किया गया है?

- (A) 2023
- (B) 2022
- (C) 2024
- (D) उपर्युक्त में से एक से अधिक
- (E) उपर्युक्त में से कोई नहीं

22. निम्नलिखित में से किसने 2022 का नोबेल शांति पुरस्कार जीता?

- (A) एलेस बियालियात्स्की
- (B) नादिया मुराद
- (C) मारिया रेसा
- (D) उपर्युक्त में से एक से अधिक
- (E) उपर्युक्त में से कोई नहीं

23. 2 जनवरी, 2022 को बिहार सरकार द्वारा नियुक्त राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन हैं?

- (A) न्यायमूर्ति संजय कुमार
- (B) न्यायमूर्ति बाल्मीकि प्रसाद सिन्हा
- (C) न्यायमूर्ति इकबाल ए० अन्सारी
- (D) उपर्युक्त में से एक से अधिक
- (E) उपर्युक्त में से कोई नहीं

24. भोजपुरी की पहली फिल्म कौन-सी थी?

- (A) गंगा मैया तोहे पियरी चढ़इबो
- (B) कन्यादान
- (C) नदिया के पार
- (D) उपर्युक्त में से एक से अधिक
- (E) उपर्युक्त में से कोई नहीं

25. भारत के निम्नलिखित थर्मल पावर प्रोजेक्टों को पूर्व से पश्चिम दिशा में व्यवस्थित कीजिए :

1. कोटा
2. नामरूप
3. ओबरा
4. पारीछा

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए।

- (A) 1, 2, 3, 4
- (B) 2, 4, 1, 3
- (C) 2, 3, 4, 1
- (D) उपर्युक्त में से एक से अधिक
- (E) उपर्युक्त में से कोई नहीं

26. ट्रिवार्था के अनुसार भारत की जलवायु किस प्रकार की है?

- (A) सवाना प्रकार
- (B) उपोष्ण मानसूनी जलवायु
- (C) भूमध्यसागरीय प्रकार
- (D) उपर्युक्त में से एक से अधिक
- (E) उपर्युक्त में से कोई नहीं

27. What is the normal date of withdrawal of south-west monsoon at Hyderabad?
- (A) 1st October
(B) 15th October
(C) 1st November
(D) More than one of the above
(E) None of the above
28. Which of the following States has maximum urbanization?
- (A) Goa
(B) Maharashtra
(C) Karnataka
(D) More than one of the above
(E) None of the above
29. 'Malnad' region is associated with which of the following plateaus of India?
- (A) Telangana Plateau
(B) Maharashtra Plateau
(C) Karnataka Plateau
(D) More than one of the above
(E) None of the above
30. South Peninsular Upland is a part of
- (A) Gondwana Land
(B) Laurentia Land
(C) Antarctica Continent
(D) More than one of the above
(E) None of the above
31. The percentage of population of Bihar with respect to India's total population is
- (A) 8.58%
(B) 10.10%
(C) 12.25%
(D) More than one of the above
(E) None of the above
32. Which of the following pairs is **not** correctly matched with respect to south of Ganga region in Bihar?
- (A) Patna–Munger
(B) Gaya–Arwal
(C) Patna–Vaishali
(D) More than one of the above
(E) None of the above

27. हैदराबाद में दक्षिण-पश्चिम मानसून की वापिसी की सामान्य तिथि क्या है?

- (A) 1 अक्टूबर
- (B) 15 अक्टूबर
- (C) 1 नवम्बर
- (D) उपर्युक्त में से एक से अधिक
- (E) उपर्युक्त में से कोई नहीं

28. निम्नलिखित में से किस राज्य में नगरीकरण सर्वाधिक है?

- (A) गोवा
- (B) महाराष्ट्र
- (C) कर्नाटक
- (D) उपर्युक्त में से एक से अधिक
- (E) उपर्युक्त में से कोई नहीं

29. 'मालनाड' क्षेत्र का सम्बन्ध निम्नलिखित में से भारत के किस पठार से है?

- (A) तेलंगाना का पठार
- (B) महाराष्ट्र का पठार
- (C) कर्नाटक का पठार
- (D) उपर्युक्त में से एक से अधिक
- (E) उपर्युक्त में से कोई नहीं

30. दक्षिणी प्रायद्वीपीय उच्चभूमि _____ का भाग है।

- (A) गोण्डवाना लैन्ड
- (B) लॉरेंशिया लैन्ड
- (C) अन्टार्कटिका महाद्वीप
- (D) उपर्युक्त में से एक से अधिक
- (E) उपर्युक्त में से कोई नहीं

31. भारत की कुल जनसंख्या के सापेक्ष बिहार की जनसंख्या का प्रतिशत क्या है?

- (A) 8.58%
- (B) 10.10%
- (C) 12.25%
- (D) उपर्युक्त में से एक से अधिक
- (E) उपर्युक्त में से कोई नहीं

32. निम्नलिखित में से कौन-सा जोड़ा बिहार के दक्षिण गंगा क्षेत्र से मेल नहीं खाता है?

- (A) पटना-मुंगेर
- (B) गया-अरवल
- (C) पटना-वैशाली
- (D) उपर्युक्त में से एक से अधिक
- (E) उपर्युक्त में से कोई नहीं

- 33.** Who is called the 'Prophet of New India'?
- (A) Raja Ram Mohan Roy
 (B) Dayananda Saraswati
 (C) Dadabhai Naoroji
 (D) More than one of the above
 (E) None of the above
- 34.** Which revolt is mentioned in *Anandamath* of Bankim Chandra Chattopadhyay?
- (A) Sannyasi
 (B) Santhal
 (C) Indigo
 (D) More than one of the above
 (E) None of the above
- 35.** Who was the founder of 'Abhinav Bharat' in London?
- (A) Vinayak Damodar Savarkar
 (B) P. M. Bapat
 (C) Shyamji Krishna Varma
 (D) More than one of the above
 (E) None of the above
- 36.** Where was the Ghadar Party established?
- (A) France
 (B) Germany
 (C) United States of America
 (D) More than one of the above
 (E) None of the above
- 37.** Who was appointed as the 'Commander in Chief' by Birsa Munda?
- (A) Demka Munda
 (B) Gaya Munda
 (C) Sundar Munda
 (D) More than one of the above
 (E) None of the above
- 38.** Who formed the Bihar Socialist Party?
- (A) Phulan Chand Tiwari and Rajendra Prasad
 (B) Phulan Prasad Varma and Jayaprakash Narayan
 (C) Raj Kumar Shukla and Swami Agnivesh
 (D) More than one of the above
 (E) None of the above
- 39.** In which year was the 'Bihar Provincial Congress Committee' formed with its headquarters at Patna?
- (A) 1908
 (B) 1910
 (C) 1906
 (D) More than one of the above
 (E) None of the above
- 40.** Who established a branch of the Anushilan Samiti in Patna in 1913?
- (A) Ramananda Sinha
 (B) Satish Jha
 (C) Sachindra Nath Sanyal
 (D) More than one of the above
 (E) None of the above



33. 'नवभारत का पैगम्बर' कौन कहलाता है?
- (A) राजा राममोहन राय
(B) दयानन्द सरस्वती
(C) दादाभाई नौरोजी
(D) उपर्युक्त में से एक से अधिक
(E) उपर्युक्त में से कोई नहीं
34. बंकिम चन्द्र चट्टोपाध्याय के *आनन्दमठ* में किस विद्रोह का उल्लेख है?
- (A) सन्न्यासी
(B) सन्थाल
(C) नील
(D) उपर्युक्त में से एक से अधिक
(E) उपर्युक्त में से कोई नहीं
35. लंदन में 'अभिनव भारत' का संस्थापक कौन था?
- (A) विनायक दामोदर सावरकर
(B) पी० एम० बापट
(C) श्यामजी कृष्ण वर्मा
(D) उपर्युक्त में से एक से अधिक
(E) उपर्युक्त में से कोई नहीं
36. ग़दर पार्टी की स्थापना कहाँ पर हुई थी?
- (A) फ्रांस
(B) जर्मनी
(C) संयुक्त राज्य अमेरिका
(D) उपर्युक्त में से एक से अधिक
(E) उपर्युक्त में से कोई नहीं
37. बिरसा मुण्डा द्वारा किसको 'कमान्डर इन् चीफ' नियुक्त किया गया था?
- (A) देमका मुण्डा
(B) गया मुण्डा
(C) सुन्दर मुण्डा
(D) उपर्युक्त में से एक से अधिक
(E) उपर्युक्त में से कोई नहीं
38. बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किन्होंने किया था?
- (A) फूलनचंद तिवारी और राजेन्द्र प्रसाद
(B) फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण
(C) राजकुमार शुक्ल और स्वामी अग्निवेश
(D) उपर्युक्त में से एक से अधिक
(E) उपर्युक्त में से कोई नहीं
39. 'बिहार प्रॉविन्सियल काँग्रेस कमेटी' जिसका मुख्यालय पटना में है, का गठन किस वर्ष हुआ?
- (A) 1908
(B) 1910
(C) 1906
(D) उपर्युक्त में से एक से अधिक
(E) उपर्युक्त में से कोई नहीं
40. 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की थी?
- (A) रामानन्द सिन्हा
(B) सतीश झा
(C) शचीन्द्रनाथ सान्याल
(D) उपर्युक्त में से एक से अधिक
(E) उपर्युक्त में से कोई नहीं

PART—II
(GEOGRAPHY)

- 41.** Which branch of Geography is concerned with the study of population, migration and urbanization?
- (A) Human geography
(B) Economic geography
(C) Social geography
(D) More than one of the above
(E) None of the above
- 42.** Fossils are formed in which rocks?
- (A) Sedimentary rocks
(B) Igneous rocks
(C) Metamorphic rocks
(D) More than one of the above
(E) None of the above
- 43.** What is the primary source of heat in the Earth's interior?
- (A) Radioactive decay
(B) Geothermal energy
(C) Friction caused by tectonic plate movement
(D) More than one of the above
(E) None of the above
- 44.** What would happen if the Earth stops rotating on its axis?
- (A) There will be no season
(B) There will be complete day on one side
(C) The atmosphere of the Earth will disappear
(D) More than one of the above
(E) None of the above
- 45.** According to plate tectonic theory, the Earth's lithosphere is divided into
- (A) continents and oceans
(B) inner core and outer core
(C) outer core and crust
(D) More than one of the above
(E) None of the above



PART—II
(GEOGRAPHY)

- 41.** भूगोल की किस शाखा का संबंध जनसंख्या, प्रवास और शहरीकरण के अध्ययन से है?
- (A) मानव भूगोल
(B) आर्थिक भूगोल
(C) सामाजिक भूगोल
(D) उपर्युक्त में से एक से अधिक
(E) उपर्युक्त में से कोई नहीं
- 42.** किन चट्टानों में जीवाश्मों का निर्माण होता है?
- (A) अवसादी
(B) आग्नेय
(C) रूपांतरित
(D) उपर्युक्त में से एक से अधिक
(E) उपर्युक्त में से कोई नहीं
- 43.** पृथ्वी के आन्तरिक भाग में ऊष्मा का प्राथमिक स्रोत क्या है?
- (A) रेडियोधर्मिता का क्षय
(B) भूतापीय ऊर्जा
(C) टेक्टोनिक प्लेटों की गति के कारण घर्षण
(D) उपर्युक्त में से एक से अधिक
(E) उपर्युक्त में से कोई नहीं
- 44.** क्या होगा यदि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमना बंद कर दे?
- (A) कोई मौसम नहीं होगा
(B) एक तरफ पूरा दिन होगा
(C) पृथ्वी का वातावरण गायब हो जाएगा
(D) उपर्युक्त में से एक से अधिक
(E) उपर्युक्त में से कोई नहीं
- 45.** प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत के अनुसार, पृथ्वी के स्थलमंडल को विभाजित किया गया है
- (A) महाद्वीप और महासागर में
(B) आंतरिक और बाहरी कोर में
(C) बाह्य कोर और क्रस्ट में
(D) उपर्युक्त में से एक से अधिक
(E) उपर्युक्त में से कोई नहीं

- 46.** Which of the following regions is known as the 'carbon sink' of the globe?
- (A) Antarctica
 - (B) Savanna
 - (C) Tropical rainforest
 - (D) More than one of the above
 - (E) None of the above
- 47.** Mechanical weathering involves
- (A) the chemical reactions between minerals and water
 - (B) the dissolution of rocks by acids
 - (C) the physical breakdown of rocks into smaller pieces
 - (D) More than one of the above
 - (E) None of the above
- 48.** The accumulation of wind-blown silt and clay that forms a fertile deposit is known as
- (A) loess
 - (B) erg
 - (C) sand sheet
 - (D) More than one of the above
 - (E) None of the above
- 49.** The cold current flowing along the coasts of Chile and Peru is known as
- (A) Agulhas
 - (B) El Niño
 - (C) Humboldt
 - (D) More than one of the above
 - (E) None of the above
- 50.** Which of the following statements are correct about fold mountains?
1. They are formed under the influence of compressional tectonic forces.
 2. Deep gorges and pyramidal peaks are formed in fold mountains.
 3. Igneous sedimentary and metamorphic rocks are found in mountain region.
- (A) 1 and 2
 - (B) 2 and 3
 - (C) 1 and 3
 - (D) More than one of the above
 - (E) None of the above

46. निम्नलिखित में से कौन-सा क्षेत्र ग्लोब के 'कार्बन सिंक' के रूप में जाना जाता है?

- (A) अंटार्कटिका
- (B) सवाना
- (C) उष्णकटिबंधीय वर्षावन
- (D) उपर्युक्त में से एक से अधिक
- (E) उपर्युक्त में से कोई नहीं

47. यांत्रिक अपक्षय में शामिल है

- (A) खनिजों और पानी के बीच रासायनिक प्रतिक्रियाएँ
- (B) ऐसिड द्वारा चट्टानों का विघटन
- (C) चट्टानों का भौतिक रूप से छोटे-छोटे टुकड़ों में टूटना
- (D) उपर्युक्त में से एक से अधिक
- (E) उपर्युक्त में से कोई नहीं

48. हवा में उड़ने वाली तलछट और चिकनी मिट्टी के जमाव से बना उपजाऊ मैदान कहलाता है

- (A) लोएस
- (B) एर्ग
- (C) रेत की चादर
- (D) उपर्युक्त में से एक से अधिक
- (E) उपर्युक्त में से कोई नहीं

49. चिली और पेरू के तट पर बहने वाली ठंडी धारा क्या कहलाती है?

- (A) अगुलहास
- (B) एल नीनो
- (C) हम्बोल्ट
- (D) उपर्युक्त में से एक से अधिक
- (E) उपर्युक्त में से कोई नहीं

50. वलित पर्वतों के बारे में, निम्नलिखित में से कौन-से कथन सही हैं?

1. वे संपीडन विवर्तनिक बलों के प्रभाव में बनते हैं।
2. वलित पर्वतों में गहरी घाटियाँ तथा पिरामिडनुमा शिखर बनते हैं।
3. पर्वतीय क्षेत्रों में आग्नेय, अवसादी एवं कायान्तरित चट्टानें पाई जाती हैं।

- (A) 1 और 2
- (B) 2 और 3
- (C) 1 और 3
- (D) उपर्युक्त में से एक से अधिक
- (E) उपर्युक्त में से कोई नहीं

- 51.** The layer of the atmosphere where weather occurs is
- (A) mesosphere
 - (B) stratosphere
 - (C) troposphere
 - (D) More than one of the above
 - (E) None of the above
- 52.** The wind system that blows from the Sahara Desert across North Africa towards the Mediterranean Sea is called the
- (A) Harmattan
 - (B) Sirocco
 - (C) Chinook
 - (D) More than one of the above
 - (E) None of the above
- 53.** The process by which water vapor changes directly into ice without passing through the liquid phase is called
- (A) evaporation
 - (B) condensation
 - (C) sublimation
 - (D) More than one of the above
 - (E) None of the above
- 54.** The trophic level of an organism refers to
- (A) its position in the food chain or food web
 - (B) its ability to reproduce
 - (C) its physical size and shape
 - (D) More than one of the above
 - (E) None of the above
- 55.** Which one of the following statements best defines the term 'Lappies' ?
- (A) A small to medium-sized shallow depression
 - (B) A landform formed due to dripping water from surface
 - (C) An irregular surface with sharp pinnacles, grooves and ridges
 - (D) More than one of the above
 - (E) None of the above



51. मौसम दशाएँ घटित होने वाले वायुमण्डल की परत कहलाती है

- (A) मध्यमंडल
- (B) समतापमंडल
- (C) क्षोभमंडल
- (D) उपर्युक्त में से एक से अधिक
- (E) उपर्युक्त में से कोई नहीं

52. उत्तरी अफ्रीका में सहारा रेगिस्तान से भूमध्य सागर की ओर चलने वाली पवन प्रणाली को कहा जाता है

- (A) हरमट्टन
- (B) सिरोको
- (C) चिनूक
- (D) उपर्युक्त में से एक से अधिक
- (E) उपर्युक्त में से कोई नहीं

53. वह प्रक्रिया, जिसके द्वारा जलवाष्प तरल अवस्था से गुजरे बिना सीधे बर्फ में बदल जाती है, कहलाती है

- (A) वाष्पीकरण
- (B) संघनन (कंडेंसेशन)
- (C) ऊर्ध्वपातन (सब्लिमेशन)
- (D) उपर्युक्त में से एक से अधिक
- (E) उपर्युक्त में से कोई नहीं

54. किसी जीव का पोषी स्तर संदर्भित करता है

- (A) खाद्य श्रृंखला या फूड वेब में इसकी स्थिति
- (B) पुनरुत्पादन करने की इसकी क्षमता
- (C) इसका भौतिक आकार और आकृति
- (D) उपर्युक्त में से एक से अधिक
- (E) उपर्युक्त में से कोई नहीं

55. निम्नलिखित में से कौन-सा कथन 'लैपीज़' को सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है?

- (A) एक छोटे से मध्यम आकार के उथले अवसाद
- (B) सतह से पानी टपकने के कारण बनने वाला स्थलरूप
- (C) तेज शिखर, खाँचे और लकीरों के साथ एक अनियमित सतह
- (D) उपर्युक्त में से एक से अधिक
- (E) उपर्युक्त में से कोई नहीं

- 56.** What is the ideal depth for the growth of coral reefs?
- (A) 200 feet to 300 feet
 - (B) 250 feet to 400 feet
 - (C) 150 feet to 350 feet
 - (D) More than one of the above
 - (E) None of the above
- 57.** What is the meaning of resources?
- (A) Natural elements of environment
 - (B) Money and financial assets
 - (C) Skills and knowledge possessed by individuals
 - (D) More than one of the above
 - (E) None of the above
- 58.** Which of the following best describe the climate of temperate grasslands?
- (A) Temperate and humid
 - (B) Cold and semi-arid
 - (C) Mild and wet
 - (D) More than one of the above
 - (E) None of the above
- 59.** The dispersion and migration of plants, mainly flowering plants, were started since
- (A) Cretaceous period
 - (B) Jurassic period
 - (C) Pliocene period
 - (D) More than one of the above
 - (E) None of the above
- 60.** Which of the following is a non-renewable source of energy?
- (A) Mineral
 - (B) Forest
 - (C) Solar energy
 - (D) More than one of the above
 - (E) None of the above
- 61.** Which continent of the world is the largest producer of rice?
- (A) Europe
 - (B) Australia
 - (C) South America
 - (D) More than one of the above
 - (E) None of the above



56. प्रवाल भित्तियों के विकास के लिए आदर्श गहराई क्या है?

- (A) 200 फीट से 300 फीट
- (B) 250 फीट से 400 फीट
- (C) 150 फीट से 350 फीट
- (D) उपर्युक्त में से एक से अधिक
- (E) उपर्युक्त में से कोई नहीं

57. संसाधन का क्या अर्थ है?

- (A) पर्यावरण के प्राकृतिक तत्त्व
- (B) धन और वित्तीय संपत्ति
- (C) व्यक्तियों के पास कौशल और ज्ञान
- (D) उपर्युक्त में से एक से अधिक
- (E) उपर्युक्त में से कोई नहीं

58. निम्नलिखित में से कौन-सा शीतोष्ण घास के मैदानों की जलवायु का सबसे अच्छा वर्णन करता है?

- (A) शीतोष्ण और आर्द्र
- (B) ठंडा और अर्ध-शुष्क
- (C) हल्का और आर्द्र
- (D) उपर्युक्त में से एक से अधिक
- (E) उपर्युक्त में से कोई नहीं

59. पौधों का फैलाव और प्रवास (मुख्य रूप से फूल वाले पौधे) कब से शुरू हुआ?

- (A) क्रीटेशस काल
- (B) जुरासिक काल
- (C) प्लियोसीन काल
- (D) उपर्युक्त में से एक से अधिक
- (E) उपर्युक्त में से कोई नहीं

60. निम्नलिखित में से कौन-सा ऊर्जा का एक गैर-नवीकरणीय स्रोत है?

- (A) खनिज
- (B) वन
- (C) सौर ऊर्जा
- (D) उपर्युक्त में से एक से अधिक
- (E) उपर्युक्त में से कोई नहीं

61. विश्व का कौन-सा महाद्वीप चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है?

- (A) यूरोप
- (B) ऑस्ट्रेलिया
- (C) दक्षिण अमेरिका
- (D) उपर्युक्त में से एक से अधिक
- (E) उपर्युक्त में से कोई नहीं

- 62.** Which of the following countries is the largest exporter of wheat in the world?
- (A) United States
 - (B) Russia
 - (C) Canada
 - (D) More than one of the above
 - (E) None of the above
- 63.** The rivermouth ecosystem is called
- (A) estuarine
 - (B) lotic
 - (C) lentic
 - (D) More than one of the above
 - (E) None of the above
- 64.** Which ecological cycle is directly driven by sunlight?
- (A) Nitrogen
 - (B) Phosphorus
 - (C) Sulphur
 - (D) More than one of the above
 - (E) None of the above
- 65.** Which of the following is the major characteristic of industrialization?
- (A) Shift from manual labor to mechanization
 - (B) Minimal use of technology and automation
 - (C) Emphasis on traditional craftsmanship
 - (D) More than one of the above
 - (E) None of the above
- 66.** The concept of human development was popularized by
- (A) Adam Smith
 - (B) John Maynard Keynes
 - (C) Amartya Sen
 - (D) More than one of the above
 - (E) None of the above



62. निम्नलिखित में से कौन-सा देश विश्व में गेहूँ का सबसे बड़ा निर्यातक है?

- (A) संयुक्त राज्य अमेरिका
- (B) रूस
- (C) कनाडा
- (D) उपर्युक्त में से एक से अधिक
- (E) उपर्युक्त में से कोई नहीं

63. नदी मुहाना पारितंत्र क्या कहलाता है?

- (A) मुहाने
- (B) लोटिक
- (C) लेंटिक
- (D) उपर्युक्त में से एक से अधिक
- (E) उपर्युक्त में से कोई नहीं

64. कौन-सा पारिस्थितिक चक्र सीधे सूर्य के प्रकाश से संचालित होता है?

- (A) नाइट्रोजन
- (B) फॉस्फोरस
- (C) सल्फर
- (D) उपर्युक्त में से एक से अधिक
- (E) उपर्युक्त में से कोई नहीं

65. निम्नलिखित में से कौन-सा उद्योगीकरण की प्रमुख विशेषता है?

- (A) शारीरिक श्रम से मशीनीकरण में बदलाव
- (B) प्रौद्योगिकी और स्वचालन का न्यूनतम उपयोग
- (C) पारंपरिक शिल्प कौशल पर जोर
- (D) उपर्युक्त में से एक से अधिक
- (E) उपर्युक्त में से कोई नहीं

66. मानव विकास की अवधारणा को किसके द्वारा लोकप्रिय बनाया गया था?

- (A) एडम स्मिथ
- (B) जॉन मेनार्ड केन्स
- (C) अमर्त्य सेन
- (D) उपर्युक्त में से एक से अधिक
- (E) उपर्युक्त में से कोई नहीं

67. Which of the following is the definition of the term 'sustainable development'?

- (A) Balancing economic growth with environmental conservation
- (B) Rapid industrialization and technological advancement
- (C) Achieving maximum profit in the shortest possible time
- (D) More than one of the above
- (E) None of the above

68. What is the big concern of defining urban and rural areas?

- (A) Size of population
- (B) Activity
- (C) Income
- (D) More than one of the above
- (E) None of the above

69. The Bundelkhand plateau covers the parts of which two of the following States?

- (A) Chhattisgarh and Jharkhand
- (B) Uttar Pradesh and Madhya Pradesh
- (C) Chhattisgarh and Uttar Pradesh
- (D) More than one of the above
- (E) None of the above

70. What is the basis of agro-climatic regionalization proposed by the Planning Commission of India?

- (A) Relief, soil and drainage
- (B) Rainfall, temperature and cropped area
- (C) Vegetation, soil and land use
- (D) More than one of the above
- (E) None of the above



67. निम्नलिखित में से कौन-सी 'सतत विकास' शब्द की परिभाषा है?

- (A) पर्यावरण संरक्षण के साथ आर्थिक विकास को संतुलित करना
- (B) तेजी से उद्योगीकरण और तकनीकी प्रगति
- (C) कम-से-कम समय में अधिकतम लाभ प्राप्त करना
- (D) उपर्युक्त में से एक से अधिक
- (E) उपर्युक्त में से कोई नहीं

68. शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों को परिभाषित करने का मापदंड क्या है?

- (A) आबादी का आकार
- (B) गतिविधि
- (C) आय
- (D) उपर्युक्त में से एक से अधिक
- (E) उपर्युक्त में से कोई नहीं

69. बुन्देलखण्ड का पठार निम्नलिखित में से किन दो राज्यों के भागों को आच्छादित करता है?

- (A) छत्तीसगढ़ और झारखंड
- (B) उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश
- (C) छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश
- (D) उपर्युक्त में से एक से अधिक
- (E) उपर्युक्त में से कोई नहीं

70. भारतीय योजना आयोग द्वारा प्रस्तावित कृषि-जलवायु क्षेत्रीयकरण का आधार क्या है?

- (A) धरातल, मिट्टी और जल निकासी
- (B) वर्षा, तापमान और फसल क्षेत्र
- (C) वनस्पति, मिट्टी और भूमि उपयोग
- (D) उपर्युक्त में से एक से अधिक
- (E) उपर्युक्त में से कोई नहीं

- 71.** Tertiary economic activities involve
- (A) the extraction or harvesting of natural resources
 - (B) the processing and transformation of raw materials
 - (C) the provision of services to consumers
 - (D) More than one of the above
 - (E) None of the above
- 72.** Which type of rural settlement is often found in the areas with fertile agricultural land?
- (A) Hamlet
 - (B) Village with compact houses
 - (C) Farmhouse
 - (D) More than one of the above
 - (E) None of the above
- 73.** Overcrowding in urban settlements can lead to
- (A) less strain on public services
 - (B) enhanced quality of life
 - (C) improved waste management
 - (D) More than one of the above
 - (E) None of the above
- 74.** In which of the following places the 'Royal Bengal Tigers' are found in India?
- (A) Gir Forest
 - (B) Sundarbans
 - (C) Kanha Tiger Reserve
 - (D) More than one of the above
 - (E) None of the above
- 75.** With reference to 'Karakoram' mountain ranges, which of the following statements is correct?
- (A) The world's second highest mountain peak K2 (Godwin Austen) belongs to this chain of mountains.
 - (B) It rises from Pamir Knot in West and stretches up to Kailash range in the East.
 - (C) The longest glacier 'Siachen' is located in the Karakoram.
 - (D) More than one of the above
 - (E) None of the above



71. तृतीयक आर्थिक क्रियाकलाप में शामिल है

- (A) प्राकृतिक संसाधनों का निष्कर्षण या खोदाई
- (B) कच्चे माल का प्रसंस्करण और परिवर्धन
- (C) उपभोक्ताओं को सेवाओं का प्रावधान
- (D) उपर्युक्त में से एक से अधिक
- (E) उपर्युक्त में से कोई नहीं

72. उपजाऊ कृषि भूमि वाले क्षेत्रों में प्रायः किस प्रकार की ग्रामीण बस्तियाँ पाई जाती हैं?

- (A) हैमलेट
- (B) सघन घरों के साथ गाँव
- (C) फार्महाउस
- (D) उपर्युक्त में से एक से अधिक
- (E) उपर्युक्त में से कोई नहीं

73. भीड़भाड़ के कारण शहरी बस्तियों में हो सकते हैं

- (A) सार्वजनिक सेवाओं पर कम दबाव
- (B) जीवन की उन्नत गुणवत्ता
- (C) बेहतर अपशिष्ट प्रबंधन
- (D) उपर्युक्त में से एक से अधिक
- (E) उपर्युक्त में से कोई नहीं

74. 'रॉयल बंगाल टाइगर्स' भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर पाए जाते हैं?

- (A) गिर वन
- (B) सुंदरबन
- (C) कान्हा टाइगर रिजर्व
- (D) उपर्युक्त में से एक से अधिक
- (E) उपर्युक्त में से कोई नहीं

75. 'काराकोरम' पर्वत श्रृंखला के संदर्भ में, निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही है?

- (A) विश्व की दूसरी सबसे ऊँची पर्वत चोटी K2 (गॉडविन ऑस्टिन) इसी पर्वत श्रृंखला से संबंधित है।
- (B) यह पश्चिम में पामीर नॉट से निकलती है और पूर्व में कैलाश पर्वतमाला तक फैली हुई है।
- (C) सबसे लंबा ग्लेशियर, 'सियाचिन' काराकोरम में स्थित है।
- (D) उपर्युक्त में से एक से अधिक
- (E) उपर्युक्त में से कोई नहीं

- 76.** Which of the following States in India is passing through the stage of demographic transition which entails low fertility and low mortality?
- (A) Assam
 - (B) Haryana
 - (C) Punjab
 - (D) More than one of the above
 - (E) None of the above
- 77.** World Conservation Day is celebrated on
- (A) 5th June
 - (B) 3rd December
 - (C) 16th September
 - (D) More than one of the above
 - (E) None of the above
- 78.** Urban environment degradation is caused by mainly
- (A) suspended particulate matter
 - (B) carbon dioxide
 - (C) vehicular emission
 - (D) More than one of the above
 - (E) None of the above
- 79.** Up to what latitude are the polar regions habitable?
- (A) Up to 80-degree latitude
 - (B) Up to 75-degree latitude
 - (C) Up to 70-degree latitude
 - (D) More than one of the above
 - (E) None of the above
- 80.** How much of the land surface in the world is under cultivation?
- (A) 28%
 - (B) 23%
 - (C) 10%
 - (D) More than one of the above
 - (E) None of the above
- 81.** Third unit of Kakrapar Atomic Power Plant, which commenced commercial operation in December 2022, is situated in which of the following States of India?
- (A) Tamil Nadu
 - (B) Gujarat
 - (C) Maharashtra
 - (D) More than one of the above
 - (E) None of the above



76. भारत में, निम्नलिखित में से कौन-सा राज्य जनसांख्यिकीय संक्रमण के चरण से गुजर रहा है, जिसमें कम प्रजनन क्षमता और कम मृत्यु-दर शामिल है?

- (A) असम
- (B) हरियाणा
- (C) पंजाब
- (D) उपर्युक्त में से एक से अधिक
- (E) उपर्युक्त में से कोई नहीं

77. विश्व संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है?

- (A) 5 जून
- (B) 3 दिसंबर
- (C) 16 सितंबर
- (D) उपर्युक्त में से एक से अधिक
- (E) उपर्युक्त में से कोई नहीं

78. शहरी पर्यावरण का निम्नीकरण मुख्य रूप से किसके द्वारा होता है?

- (A) निलंबित कण पदार्थ
- (B) कार्बन डाइऑक्साइड
- (C) वाहन उत्सर्जन
- (D) उपर्युक्त में से एक से अधिक
- (E) उपर्युक्त में से कोई नहीं

79. ध्रुवीय क्षेत्र किस अक्षांश तक रहने योग्य है?

- (A) 80 डिग्री अक्षांश तक
- (B) 75 डिग्री अक्षांश तक
- (C) 70 डिग्री अक्षांश तक
- (D) उपर्युक्त में से एक से अधिक
- (E) उपर्युक्त में से कोई नहीं

80. विश्व में भूमि के कितने भाग पर खेती की जाती है?

- (A) 28%
- (B) 23%
- (C) 10%
- (D) उपर्युक्त में से एक से अधिक
- (E) उपर्युक्त में से कोई नहीं

81. काकरापार परमाणु ऊर्जा संयंत्र जिसकी तीसरी इकाई का वाणिज्यिक संचालन दिसंबर 2022 में शुरू हुआ है, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें स्थित है?

- (A) तमिलनाडु
- (B) गुजरात
- (C) महाराष्ट्र
- (D) उपर्युक्त में से एक से अधिक
- (E) उपर्युक्त में से कोई नहीं

82. 'Ramgarh Visdhari', which was notified as a tiger reserve in May 2022, is situated in which of the following States of India?

- (A) Gujarat
- (B) Maharashtra
- (C) Rajasthan
- (D) More than one of the above
- (E) None of the above

83. Which of the following mines is an important mine of bauxite in India?

- (A) Koraput
- (B) Sundergarh
- (C) Khetri
- (D) More than one of the above
- (E) None of the above

84. Noamundi and Kiriburu Mines are famous for iron ore mining in India. In which of the following States are they located?

- (A) Karnataka
- (B) Chhattisgarh
- (C) Jharkhand
- (D) More than one of the above
- (E) None of the above

85. Which one of the following types of forests is found in the Western Ghats, Hills of North-East and also in Andaman and Nicobar Islands?

- (A) Mangrove forest
- (B) Tropical evergreen forest
- (C) Dry deciduous forest
- (D) More than one of the above
- (E) None of the above



82. 'रामगढ़ विषधारी' जिसे मई 2022 में बाघ अभयारण्य के रूप में अधिसूचित किया गया था, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें स्थित है?

- (A) गुजरात
- (B) महाराष्ट्र
- (C) राजस्थान
- (D) उपर्युक्त में से एक से अधिक
- (E) उपर्युक्त में से कोई नहीं

83. निम्नलिखित में से कौन-सी भारत में बॉक्साइट की एक महत्वपूर्ण खदान है?

- (A) कोरापुट
- (B) सुंदरगढ़
- (C) खेतड़ी
- (D) उपर्युक्त में से एक से अधिक
- (E) उपर्युक्त में से कोई नहीं

84. भारत में लौह अयस्क खनन के लिए नोआमुंडी और किरीबुरू खदानें प्रसिद्ध हैं। वे निम्नलिखित राज्यों में से किसमें स्थित हैं?

- (A) कर्नाटक
- (B) छत्तीसगढ़
- (C) झारखंड
- (D) उपर्युक्त में से एक से अधिक
- (E) उपर्युक्त में से कोई नहीं

85. निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन पश्चिमी घाट, उत्तर-पूर्व की पहाड़ियों और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में भी पाए जाते हैं?

- (A) मैंग्रोव वन
- (B) उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन
- (C) शुष्क पर्णपाती वन
- (D) उपर्युक्त में से एक से अधिक
- (E) उपर्युक्त में से कोई नहीं

- 86.** What is the full form of NFSM?
- (A) Nutritional Food Security Mission
- (B) National Food Supply Mission
- (C) National Food Security Mission
- (D) More than one of the above
- (E) None of the above
- 87.** Which crop is highly tolerant of drought and other extreme weather conditions?
- (A) Rice
- (B) Wheat
- (C) Bajra
- (D) More than one of the above
- (E) None of the above
- 88.** Which of the following countries proposed 2023 to be celebrated as the International Year of Millets at the UNO?
- (A) Brazil
- (B) China
- (C) USA
- (D) More than one of the above
- (E) None of the above
- 89.** Relief, climate, vegetation, soils are the bases of the division of
- (A) geographical region
- (B) natural region
- (C) specific region
- (D) More than one of the above
- (E) None of the above
- 90.** The Shivalik Hills are known as Abor in which of the following States/UTs?
- (A) Jammu and Kashmir
- (B) Uttarakhand
- (C) Arunachal Pradesh
- (D) More than one of the above
- (E) None of the above
- 91.** Who among the following defines geography as a chronological science?
- (A) A. Hettner
- (B) Carl Ritter
- (C) F. von Richthofen
- (D) More than one of the above
- (E) None of the above



86. एन०एफ०एस०एम० का पूर्ण रूप क्या है?

- (A) न्यूट्रिशनल फूड सिक्योरिटी मिशन
- (B) नैशनल फूड सप्लाई मिशन
- (C) नैशनल फूड सिक्योरिटी मिशन
- (D) उपर्युक्त में से एक से अधिक
- (E) उपर्युक्त में से कोई नहीं

87. कौन-सी फसल सूखा और अन्य चरम मौसम की स्थिति के प्रति अत्यधिक सहिष्णु है?

- (A) चावल
- (B) गेहूँ
- (C) बाजरा
- (D) उपर्युक्त में से एक से अधिक
- (E) उपर्युक्त में से कोई नहीं

88. किस देश ने 2023 को UNO में अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज (मिलेट्स) वर्ष के रूप में मनाने का प्रस्ताव दिया?

- (A) ब्राजील
- (B) चीन
- (C) यू० एस० ए०
- (D) उपर्युक्त में से एक से अधिक
- (E) उपर्युक्त में से कोई नहीं

89. उच्चावच, जलवायु, वनस्पति, मिट्टी किसके विभाजन के आधार हैं?

- (A) भौगोलिक क्षेत्र
- (B) प्राकृतिक क्षेत्र
- (C) विशिष्ट क्षेत्र
- (D) उपर्युक्त में से एक से अधिक
- (E) उपर्युक्त में से कोई नहीं

90. शिवालिक पहाड़ियों को निम्नलिखित में से किस राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में अबोर के नाम से जाना जाता है?

- (A) जम्मू और कश्मीर
- (B) उत्तराखंड
- (C) अरुणाचल प्रदेश
- (D) उपर्युक्त में से एक से अधिक
- (E) उपर्युक्त में से कोई नहीं

91. इनमें से किसने भूगोल को कालानुक्रमिक विज्ञान के रूप में परिभाषित किया है?

- (A) ए० हेटनर
- (B) कार्ल रिटर
- (C) एफ० वॉन रिचथोफेन
- (D) उपर्युक्त में से एक से अधिक
- (E) उपर्युक्त में से कोई नहीं

- 92.** What is the main cause of volcanic eruptions?
- (A) Origin of magma due to lowering the melting point
 - (B) Origin of gases and vapour due to heating of underground water
 - (C) Plate tectonic movements
 - (D) More than one of the above
 - (E) None of the above
- 93.** Karst topography is characterized by
- (A) tall mountains and deep valleys
 - (B) vast deserts with sand dunes
 - (C) underground caves and doline
 - (D) More than one of the above
 - (E) None of the above
- 94.** Which of the following is the wind system that is influenced by the seasonal reversal of pressure patterns?
- (A) Trade wind
 - (B) Westerly
 - (C) Monsoon
 - (D) More than one of the above
 - (E) None of the above
- 95.** The belt of low pressure located around 60 degrees latitude in both hemispheres is called the
- (A) Intertropical Convergence Zone
 - (B) subpolar low-pressure belt
 - (C) polar front
 - (D) More than one of the above
 - (E) None of the above
- 96.** Orographic rainfall is caused by
- (A) frontal lifting of air masses
 - (B) convection in the atmosphere
 - (C) lifting of air by mountains or hills
 - (D) More than one of the above
 - (E) None of the above
- 97.** The hydrological cycle helps to maintain
- (A) global temperature balance
 - (B) atmospheric pressure balance
 - (C) ocean salinity balance
 - (D) More than one of the above
 - (E) None of the above

92. ज्वालामुखी उद्गार का प्रमुख कारण क्या है?

- (A) गलनांक कम हो जाने के कारण मैग्मा की उत्पत्ति
- (B) भूमिगत जल के गर्म होने के कारण गैसों और वाष्प की उत्पत्ति
- (C) प्लेट टेक्टोनिक गतियाँ
- (D) उपर्युक्त में से एक से अधिक
- (E) उपर्युक्त में से कोई नहीं

93. कार्स्ट स्थलाकृति की विशेषता है

- (A) ऊँचे पहाड़ और गहरी घाटियाँ
- (B) रेत के टीलों के साथ विशाल रेगिस्तान
- (C) भूमिगत गुफाएँ और डोलाइन
- (D) उपर्युक्त में से एक से अधिक
- (E) उपर्युक्त में से कोई नहीं

94. निम्नलिखित पवन प्रणालियों में से कौन-सी दबाव प्रतिरूप के मौसमी उत्क्रमण से प्रभावित होती है?

- (A) व्यापारिक हवा
- (B) पश्चिमी हवा
- (C) मानसून
- (D) उपर्युक्त में से एक से अधिक
- (E) उपर्युक्त में से कोई नहीं

95. दोनों गोलार्द्धों में लगभग 60° अक्षांश पर स्थित निम्न दाब की पेटी कहलाती है

- (A) इंटरट्रॉपिकल अभिसरण क्षेत्र
- (B) उपध्रुवीय निम्न दबाव पेटी
- (C) ध्रुवीय वाताग्र
- (D) उपर्युक्त में से एक से अधिक
- (E) उपर्युक्त में से कोई नहीं

96. पर्वतीय वर्षा का कारण होता है

- (A) वायु वाताग्र का ऊपर उठना
- (B) वातावरण में संवहन क्रिया
- (C) पर्वतों या पहाड़ियों द्वारा वायु का ऊपर उठना
- (D) उपर्युक्त में से एक से अधिक
- (E) उपर्युक्त में से कोई नहीं

97. जलीय चक्र निम्नलिखित में से किसे बनाए रखने में मदद करता है?

- (A) वैश्विक तापमान संतुलन
- (B) वायुमंडलीय दबाव संतुलन
- (C) महासागर लवणता संतुलन
- (D) उपर्युक्त में से एक से अधिक
- (E) उपर्युक्त में से कोई नहीं

98. The underwater mountain ranges in ocean that extend throughout the world's oceans are called

- (A) trenches
- (B) seamounts
- (C) abyssal plains
- (D) More than one of the above
- (E) None of the above

99. The Coriolis effect influences ocean currents by

- (A) increasing their speed
- (B) causing them to move in a straight line
- (C) creating turbulence and eddies
- (D) More than one of the above
- (E) None of the above

100. The burning of fossil fuels for energy production contributes to

- (A) increase greenhouse gas emissions
- (B) depletion of the ozone layer
- (C) air pollution and climate change
- (D) More than one of the above
- (E) None of the above

101. Which of the following rocks are intrusive igneous rock formation?

- (A) Laccoliths
- (B) Batholiths
- (C) Dykes
- (D) More than one of the above
- (E) None of the above

102. The percentage of forest cover in India according to the Forest Survey of India Report, 2021 is

- (A) 22.6%
- (B) 24.5%
- (C) 33.3%
- (D) More than one of the above
- (E) None of the above



98. पूरे विश्व के महासागरों में फैली हुई समुद्र के भीतर पानी के नीचे की पर्वत श्रृंखलाएँ कहलाती हैं

(A) खाइयाँ

(B) सीमाउंट

(C) अगाध मैदान

(D) उपर्युक्त में से एक से अधिक

(E) उपर्युक्त में से कोई नहीं

99. कोरिओलिस प्रभाव महासागरीय धाराओं को कैसे प्रभावित करता है ?

(A) उनकी गति बढ़ाके

(B) उन्हें एक सीधी रेखा में चलने के लिए प्रेरित करके

(C) विक्षोभ और भँवर पैदा करके

(D) उपर्युक्त में से एक से अधिक

(E) उपर्युक्त में से कोई नहीं

100. ऊर्जा उत्पादन के लिए जीवाश्म ईंधन को जलाने से क्या होता है?

(A) ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में वृद्धि

(B) ओजोन परत का क्षरण

(C) वायु प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन

(D) उपर्युक्त में से एक से अधिक

(E) उपर्युक्त में से कोई नहीं

101. निम्नलिखित में से कौन-सी चट्टान अंतर्भेदी आग्नेय शैल रचना है?

(A) लैकोलिथ

(B) बैथोलिथ

(C) डाइक

(D) उपर्युक्त में से एक से अधिक

(E) उपर्युक्त में से कोई नहीं

102. भारत की वन सर्वेक्षण रिपोर्ट, 2021 के अनुसार, भारत में वनावरण का प्रतिशत है

(A) 22.6%

(B) 24.5%

(C) 33.3%

(D) उपर्युक्त में से एक से अधिक

(E) उपर्युक्त में से कोई नहीं

- 103.** Forest is a/an
- (A) biotic community
 - (B) plant community
 - (C) ecotype
 - (D) More than one of the above
 - (E) None of the above
- 104.** The major reason for the extinction of a species is
- (A) forest fires
 - (B) hunting
 - (C) habitat destruction
 - (D) More than one of the above
 - (E) None of the above
- 105.** Mangrove forests are found in
- (A) hilly areas
 - (B) laterite soils
 - (C) estuaries
 - (D) More than one of the above
 - (E) None of the above
- 106.** Zero-degree latitude and zero-degree longitude lie in the
- (A) Atlantic Ocean
 - (B) Pacific Ocean
 - (C) Indian Ocean
 - (D) More than one of the above
 - (E) None of the above
- 107.** Which of the statements given below is correct?
- (A) The inner core of the Earth is composed of iron and nickel.
 - (B) The inner core of the Earth is in solid state.
 - (C) The inner core of the Earth has more depth than the outer core.
 - (D) More than one of the above
 - (E) None of the above



103. वन क्या है?

- (A) जैविक समुदाय
- (B) वनस्पति समुदाय
- (C) पारिस्थितिकी
- (D) उपर्युक्त में से एक से अधिक
- (E) उपर्युक्त में से कोई नहीं

104. किसी प्रजाति के विलुप्त होने का प्रमुख कारण है

- (A) जंगल की आग
- (B) शिकार
- (C) प्राकृतिक आवास का विनाश
- (D) उपर्युक्त में से एक से अधिक
- (E) उपर्युक्त में से कोई नहीं

105. मैंग्रोव वन पाए जाते हैं

- (A) पहाड़ी क्षेत्रों में
- (B) लैटेराइट मिट्टी में
- (C) ज्वारनदमुख में
- (D) उपर्युक्त में से एक से अधिक
- (E) उपर्युक्त में से कोई नहीं

106. शून्य डिग्री अक्षांश और शून्य डिग्री देशांतर कहाँ स्थित हैं?

- (A) अटलांटिक महासागर
- (B) प्रशांत महासागर
- (C) हिंद महासागर
- (D) उपर्युक्त में से एक से अधिक
- (E) उपर्युक्त में से कोई नहीं

107. निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा सही है?

- (A) पृथ्वी का आंतरिक कोर लोहे और निकल से बना है।
- (B) पृथ्वी का आंतरिक कोर ठोस अवस्था में है।
- (C) पृथ्वी के भीतरी भाग में बाहरी भाग की तुलना में अधिक गहराई है।
- (D) उपर्युक्त में से एक से अधिक
- (E) उपर्युक्त में से कोई नहीं

- 108.** Which of the following features on the Earth are formed by tectonic movement?
- (A) Volcanic mountains
 - (B) Faults/folds
 - (C) Trenches
 - (D) More than one of the above
 - (E) None of the above
- 109.** Ecological niche refers to
- (A) the interaction between man and environment
 - (B) the functional role of an organism in the ecosystem
 - (C) the interdependence of man and plants
 - (D) More than one of the above
 - (E) None of the above
- 110.** Energy that is reflected by the atmosphere
- (A) does not heat the atmosphere
 - (B) has a different wavelength than the incoming energy
 - (C) heats the atmosphere by absorption
 - (D) More than one of the above
 - (E) None of the above
- 111.** The albedo of a surface refers to
- (A) its ability to absorb solar radiation
 - (B) its ability to radiate heat
 - (C) its ability to reflect solar radiation
 - (D) More than one of the above
 - (E) None of the above
- 112.** The rise in global average temperature due to global warming can lead to
- (A) increased frequency and intensity of heat waves
 - (B) melting of polar ice caps and glaciers
 - (C) sea level rise
 - (D) More than one of the above
 - (E) None of the above



108. पृथ्वी पर निम्नलिखित में से कौन-सी आकृति विवर्तनिक गति से बनी है?

- (A) ज्वालामुखी पर्वत
- (B) भ्रंश/वलन
- (C) खाई
- (D) उपर्युक्त में से एक से अधिक
- (E) उपर्युक्त में से कोई नहीं

109. पारिस्थितिक आला (निच) क्या संदर्भित करता है?

- (A) आदमी और पर्यावरण के बीच परस्पर क्रिया
- (B) पारिस्थितिकी तंत्र में एक जीव की कार्यात्मक भूमिका
- (C) मनुष्य और पौधों की परस्पर निर्भरता
- (D) उपर्युक्त में से एक से अधिक
- (E) उपर्युक्त में से कोई नहीं

110. ऊर्जा जो वातावरण से परावर्तित होती है

- (A) वातावरण को गर्म नहीं करती है
- (B) आने वाली ऊर्जा की तुलना में एक अलग तरंगदैर्घ्य वाली है
- (C) अवशोषण द्वारा वातावरण को गर्म करती है
- (D) उपर्युक्त में से एक से अधिक
- (E) उपर्युक्त में से कोई नहीं

111. किसी सतह के अल्बेडो का अर्थ है

- (A) सौर विकिरण को अवशोषित करने की उसकी क्षमता
- (B) गर्मी विकीर्ण करने की उसकी क्षमता
- (C) सौर विकिरण को परावर्तित करने की उसकी क्षमता
- (D) उपर्युक्त में से एक से अधिक
- (E) उपर्युक्त में से कोई नहीं

112. वैश्विक तापन (ग्लोबल वॉर्मिंग) से वैश्विक औसत तापमान में वृद्धि के कारण हो सकता है

- (A) गर्मी की लहरों की आवृत्ति और तीव्रता में वृद्धि
- (B) ध्रुवीय बर्फ की चोटियों और ग्लेशियरों का पिघलना
- (C) समुद्र के स्तर में वृद्धि
- (D) उपर्युक्त में से एक से अधिक
- (E) उपर्युक्त में से कोई नहीं

113. The area of calm and low-pressure conditions at the center of a tropical cyclone is called the

- (A) eye
- (B) eyewall
- (C) storm surge
- (D) More than one of the above
- (E) None of the above

114. Which of the following is the example of a renewable resource?

- (A) Soil fertility
- (B) Wildlife
- (C) Forest
- (D) More than one of the above
- (E) None of the above

115. Which of the following is the commonality resource?

- (A) Nitrogen in atmosphere
- (B) Uranium
- (C) Soil
- (D) More than one of the above
- (E) None of the above

116. What is the significance of the equatorial region in terms of agriculture?

- (A) Extensive commercial agriculture
- (B) Poor soil quality and not suitable for agriculture
- (C) It has a diverse range of crops
- (D) More than one of the above
- (E) None of the above



113. उष्णकटिबंधीय चक्रवात के केंद्र में स्थित शांत और कम दबाव की स्थिति वाला क्षेत्र कहलाता है

- (A) आँख
- (B) नेत्रभित्ति
- (C) तूफान आवेश
- (D) उपर्युक्त में से एक से अधिक
- (E) उपर्युक्त में से कोई नहीं

114. निम्नलिखित में से कौन-सा नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण है?

- (A) मिट्टी की उर्वरता
- (B) वन्यजीव
- (C) वन
- (D) उपर्युक्त में से एक से अधिक
- (E) उपर्युक्त में से कोई नहीं

115. निम्नलिखित में से कौन-सा सामान्य सुलभ संसाधन है?

- (A) वातावरण में नाइट्रोजन
- (B) यूरेनियम
- (C) मिट्टी
- (D) उपर्युक्त में से एक से अधिक
- (E) उपर्युक्त में से कोई नहीं

116. कृषि की दृष्टि से विषुवतीय क्षेत्र का क्या महत्त्व है?

- (A) व्यापक वाणिज्यिक कृषि
- (B) मिट्टी की खराब गुणवत्ता जो कृषि के लिए उपयुक्त नहीं है
- (C) इसमें विविध प्रकार की फसलें होती हैं
- (D) उपर्युक्त में से एक से अधिक
- (E) उपर्युक्त में से कोई नहीं

117. Which of the following factors contributes to the high production of wheat in the United States?

- (A) Advanced agricultural technology
- (B) Favourable climate
- (C) Extensive irrigation system
- (D) More than one of the above
- (E) None of the above

118. Which country of the world was the largest producer of cotton in 2022?

- (A) China
- (B) United States
- (C) Brazil
- (D) More than one of the above
- (E) None of the above

119. Which of the following crops requires a tropical or subtropical climate for optimal growth?

- (A) Cotton
- (B) Sugarcane
- (C) Tea
- (D) More than one of the above
- (E) None of the above

120. Which country was the largest producer of milk in the world in 2022?

- (A) United States
- (B) India
- (C) New Zealand
- (D) More than one of the above
- (E) None of the above



117. निम्नलिखित में से कौन-सा कारक संयुक्त राज्य अमेरिका में गेहूँ के उच्च उत्पादन में योगदान देता है?

- (A) उन्नत कृषि प्रौद्योगिकी
- (B) अनुकूल जलवायु
- (C) व्यापक सिंचाई प्रणाली
- (D) उपर्युक्त में से एक से अधिक
- (E) उपर्युक्त में से कोई नहीं

118. विश्व का कौन-सा देश 2022 में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक था?

- (A) चीन
- (B) संयुक्त राज्य अमेरिका
- (C) ब्राजील
- (D) उपर्युक्त में से एक से अधिक
- (E) उपर्युक्त में से कोई नहीं

119. अनुकूलतम विकास के लिए किस फसल को उष्ण- या उपोष्ण-कटिबंधीय जलवायु की आवश्यकता होती है?

- (A) कपास
- (B) गन्ना
- (C) चाय
- (D) उपर्युक्त में से एक से अधिक
- (E) उपर्युक्त में से कोई नहीं

120. कौन-सा देश 2022 में दुनिया में दूध का सबसे बड़ा उत्पादक था?

- (A) संयुक्त राज्य अमेरिका
- (B) भारत
- (C) न्यूजीलैंड
- (D) उपर्युक्त में से एक से अधिक
- (E) उपर्युक्त में से कोई नहीं

SPACE FOR ROUGH WORK / रफ़ कार्य के लिए स्थान



SPACE FOR ROUGH WORK / रफ़ कार्य के लिए स्थान

★ ★ ★

उम्मीदवार का अनुक्रमांक

--	--	--	--	--	--	--



प्रश्न-पुस्तिका

सामान्य अध्ययन एवं भूगोल

पत्र-4

समय : 2 घण्टे

पूर्णांक : 120

प्रश्नों के उत्तर देने से पहले नीचे लिखे अनुदेशों को ध्यान से पढ़ लें।

महत्त्वपूर्ण अनुदेश

1. यह प्रश्न-पुस्तिका दो भागों में विभाजित है, भाग-I एवं भाग-II। भाग-I में सामान्य अध्ययन तथा भाग-II में भूगोल के प्रश्न हैं।
2. भाग-I में प्रश्न संख्या 1 से 40 तक तथा भाग-II में प्रश्न संख्या 41 से 120 तक हैं। सभी प्रश्न और उनके उत्तर अंग्रेजी एवं हिन्दी में मुद्रित हैं।
3. सभी प्रश्नों के अंक समान हैं।
4. भाग-I एवं भाग-II के प्रश्नों के उत्तर दें।
5. परीक्षा आरम्भ होते ही आप अपनी प्रश्न-पुस्तिका की जाँच कर देख लें कि इसके ऊपर दायीं ओर प्रश्न-पुस्तिका की शृंखला मुद्रित है। कृपया जाँच लें कि पुस्तिका में रफ़ कार्य हेतु दो पृष्ठों (पृष्ठ सं० 46 और 47) सहित पूरे 48 मुद्रित पृष्ठ हैं और कोई प्रश्न या पृष्ठ बिना छपा हुआ या फटा हुआ या दोबारा आया हुआ तो नहीं है। पुस्तिका में किसी प्रकार की त्रुटि पाने पर तत्काल इसके बदले इसी शृंखला की दूसरी सही पुस्तिका ले लें।
6. इस पृष्ठ के ऊपर निर्धारित स्थान में अपना अनुक्रमांक अवश्य लिखें। प्रश्न-पुस्तिका पर और कुछ न लिखें।
7. प्रश्नों के उत्तर देने के लिए आपको वीक्षक द्वारा अलग से उत्तर पत्रक दिया जायेगा। अपने उत्तर पत्रक के पृष्ठ-1 पर निर्धारित स्थान में अपना नाम, अनुक्रमांक, प्रश्न-पुस्तिका शृंखला तथा अन्य विवरण अवश्य लिखें अन्यथा आपका उत्तर पत्रक जाँचा नहीं जायेगा।
8. उत्तर पत्रक के पृष्ठ-2 पर निर्धारित स्थान में अपने अनुक्रमांक तथा प्रश्न-पुस्तिका की शृंखला A, B, C या D जैसा इस प्रश्न-पुस्तिका के आवरण पृष्ठ के ऊपर दायीं ओर अंकित है, से सम्बन्धित वृत्त को काली/नीली स्याही के बॉल-पॉइन्ट पेन से अवश्य कूटबद्ध करें। उत्तर पत्रक पर प्रश्न-पुस्तिका शृंखला अंकित नहीं करने अथवा गलत शृंखला अंकित करने पर उत्तर पत्रक का सही मूल्यांकन नहीं होगा।
9. प्रत्येक प्रश्न के पाँच उत्तर—(A), (B), (C), (D) और (E) क्रम पर दिये गये हैं। उनमें से आप सबसे सही केवल एक उत्तर को चुनें और अपने उत्तर पत्रक पर अंकित करें। प्रत्येक प्रश्न के लिए केवल एक ही उत्तर चुनना है। आपका कुल प्राप्तांक आपके द्वारा उत्तर पत्रक में अंकित सही उत्तरों पर निर्भर करेगा।
10. उत्तर पत्रक में प्रत्येक प्रश्न संख्या के सामने पाँच वृत्त इस प्रकार बने हुए हैं—(A), (B), (C), (D) और (E)। प्रश्नों के उत्तर देने के लिए आपको अपनी पसन्द के केवल एक वृत्त को काली/नीली स्याही के बॉल-पॉइन्ट पेन से चिह्नित करना है। प्रत्येक प्रश्न के लिए केवल एक उत्तर को चुनें और उसे अपने उत्तर पत्रक में चिह्नित करें। आप उत्तर पत्रक में यदि एक प्रश्न के लिए एक से अधिक वृत्त में निशान लगाते हैं, तो आपका उत्तर गलत माना जायेगा। उत्तर पत्रक में उत्तर को चिह्नित करने के लिए केवल काली/नीली स्याही के बॉल-पॉइन्ट पेन का ही प्रयोग करें। किसी भी प्रकार का काट-कूट अथवा परिवर्तन मान्य नहीं है।
11. उम्मीदवार द्वारा प्रत्येक प्रश्न के गलत उत्तर के लिए प्रश्न हेतु नियत किये गये अंकों का एक-चौथाई अंक दण्ड के रूप में काटा जायेगा।
12. प्रश्न-पुस्तिका से कोई पन्ना फाड़ना या अलग करना मना है। प्रश्न-पुस्तिका और उत्तर पत्रक को परीक्षा अवधि में परीक्षा भवन से बाहर कदापि न ले जायें। परीक्षा के समापन पर उत्तर पत्रक वीक्षक को अवश्य सौंप दें। उसके बाद आपको अपनी प्रश्न-पुस्तिका अपने साथ ले जाने की अनुमति है।
13. ऊपर के अनुदेशों में से किसी एक का भी पालन नहीं करने पर आप पर आयोग के विवेकानुसार कार्रवाई की जा सकती है अथवा आपको दण्ड दिया जा सकता है।
14. अभ्यर्थी उत्तर पत्रक को अपनी उपस्थिति में Self Adhesive LDPE Bag में पूरी तरह से पैक/सील करवाने के उपरांत ही परीक्षाकक्ष को छोड़ें।

Note : English version of the instructions is printed on the First Page of this Booklet.

